



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 541]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2005/पौष 8, 1927

No. 541]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2005/PAUSA 8, 1927

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2005

जिसको वे बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं ;

और मास की वह अंतिम तारीख नहीं होगी जैसा अन्य सरकारी सेवकों की दशा में है।”

[सं. ए-60011/14/2005-प्रशा. III(एलए)]

के. डी. सिंह, अपर सचिव

सा.का.नि. 753(अ).—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इन निमित्त उन्हें समर्थ करने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2005 है।

- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के खंड (ग) में “11, 12 और 13 में अध्यक्ष सम्मिलित नहीं है,” अंकों और शब्दों के स्थान पर “12 और 13 में अध्यक्ष, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष सम्मिलित नहीं है,” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल नियम में, नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“11. सेवानिवृत्ति—(क) अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की तारीख वह तारीख होगी जिसको वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है ;

(ख) ज्येष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की सेवानिवृत्ति की तारीख वह तारीख होगी

पाद टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 1265, 19 जुलाई, 1963 द्वारा संशोधन किया गया था और पश्चात्पूर्वी संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए थे :—

1. सा.का.नि. 1864 तारीख 6-12-1965
2. सा.का.नि. 4 तारीख 26-12-1972
3. सा.का.नि. 576 तारीख 23-5-1981
4. सा.का.नि. 905 तारीख 16-9-1981
5. सा.का.नि. तारीख 12-1-1984
6. सा.का.नि. तारीख 24-5-1984
7. सा.का.नि. तारीख 29-11-1985
8. सा.का.नि. 1265 तारीख 6-2-1986
9. सा.का.नि. 1003(अ) तारीख 4-08-1986
10. सा.का.नि. 1338(अ) तारीख 29-12-1986
11. सा.का.नि. 912(अ) तारीख 8-09-1988
12. सा.का.नि. 454(अ) तारीख 24-6-1999

13. सा.का.नि. 786(अ) तारीख 26-11-1999

14. सा.का.नि. 926(अ) तारीख 5-12-2003

15. सा.का.नि. 283(अ) तारीख 26-4-2004

16. सा.का.नि. 742(अ) तारीख 23-12-2005

# MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2005

**G.S.R. 753(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and of all other powers enabling him in that behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Second Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963 (hereinafter referred to as the principal Rules), in rule 2, in clause (c), for the figures and words "11, 12 and 13 does not include the President;", the figures and words "12 and 13 does not include the President, Senior Vice-President and Vice-President" shall be substituted.

3. In the principal Rules, for rule 11, the following shall be substituted, namely :—

**"11. Retirement**—The date of retirement of,—

(a) the President shall be the date on which he

attains the age of sixty-five years;

(b) the Senior Vice-President, Vice-President and Member shall be the date on which they attain the age of sixty-two years;

and not the last date of the month as in the case of other Government servants."

[F. No. A-60011/14/2005-Admn.III (LA)]

K. D. SINGH, Addl. Secy.

**Foot Note :** The principal rules were notified in Part II, Section 3, Sub-section (i), Gazette of India, vide Number G.S.R. 1265, dated 19th July, 1963, and subsequently amended vide :—

1. G.S.R. 1864 dated 6-12-1965
2. G.S.R. 4 dated 26-12-1972
3. G.S.R. 576 dated 23-5-1981
4. G.S.R. No. 905 dated 16-9-1981
5. G.S.R. dated 12-1-1984
6. G.S.R. dated 24-5-1984
7. G.S.R. dated 29-11-1985
8. G.S.R. 1265 dated 6-2-1986
9. G.S.R. 1003(E) dated 4-8-1986
10. G.S.R. 1338(E) dated 29-12-1986
11. G.S.R. 912(E) dated 8-9-1988
12. G.S.R. 454(E) dated 24-6-1999
13. G.S.R. 786(E) dated 26-11-1999
14. G.S.R. 926(E) dated 5-12-2003
15. G.S.R. 283(E) dated 26-4-2004
16. G.S.R. 742(E) dated 23-12-2005